

Corporate Office: Plot No-18, Sector-35, Gurugram - 122004, Haryana (India) • Tel.: +91-124-4566300, 4786000
E-mail: devyani@dil-rjcorp.com • Website: www.dil-rjcorp.com;
CIN: L15135DL1991PLC046758

June 2, 2022

To,

National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Block G, C/1, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051 Email: cmlist@nse.co.in Symbol: DEVYANI	BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 Email: corp.relations@bseindia.com Security Code: 543330
---	--


Sub: Newspaper Advertisement regarding 31st Annual General Meeting ("AGM") of the Company through Video Conferencing/Other Audio Visual Means.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and SEB1 (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021 and 2/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 14, 2021 and May 5, 2022 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs, copies of the newspaper advertisement published in "Business Standard" in English and Hindi language on June 2, 2022 regarding convening of 31st AGM of the Company on Tuesday, June 28, 2022 through Video Conferencing/Other Audio Visual Means facility are enclosed herewith. The same is also available on website of the Company at www.dil-rjcorp.com.

You are requested to take the above on record.

Yours faithfully,
For Devyani International Limited



Varun Kumar Prabhakar
Company Secretary & Compliance Officer



Encl: As above



PARRY AGRO INDUSTRIES LIMITED
CIN: U01132TN01FLC07800
Registered Office: Parry House, 43, Moore Street, Chennai - 600 001

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA).

As per Section 124(b) of the Companies Act, 2013 (the Act) and above Rules, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for over consecutive years or more are required to be transferred to the deposit account of the Investor Education and Protection Fund (IEPF).

In case the Company/KFin Technologies Limited (RTA) does not receive the requisite documents by 20th August, 2022, the Company shall, in compliance with the requirements of the Act and the Rules, transfer the shares to the IEPF as per procedure stipulated in Rules, without any further notice.

For further information/clarification, concerned shareholders may contact the Company or the RTA at the following address:
Parry Agro Industries Limited
KFin Technologies Limited

Parry Agro Industries Limited
Chennai
31st June, 2022
Praveen Wilson
Chief Financial Officer

SBFI
Digital & Transaction Banking Department
Corporate Centre, 2nd floor, Mahatma Centre, Naamam Point, Mumbai - 400021

Corrigendum - 1
RFP No. SB/VE/RFP/2022-23/001 DATED: 12.04.2022
Please refer the Corrigendum available with RFP No. SB/VE/RFP/2022-23/001, dated 12.04.2022 available under "Procurement News" at Bank's Website: https://bank.sbi.in/https://www.sbi.co.in/https://etender.sbi/

Balmer Lawrie & Co Ltd
(A Government of India Enterprise)
Address: 21, N.S Road, Kolkata - 700 001
Phone: 22225290, e-mail: sharma.bhaskar@balmerlawrie.com

TENDER NOTICE FOR LEGAL COMPLIANCE AUDIT
Balmer Lawrie invites online bids from experienced and resourceful bidders for conducting Legal Compliance Audit. Interested Agencies can download the tender details from the website and participate in the tender.

For Parry Agro Industries Limited
Praveen Wilson
Chief Financial Officer

Indian Overseas Bank
Information Technology Department
Corporate Office: 763, Anna Salai, Chennai-600002

Indian Overseas Bank (IOB) invites bids for the following:
GOVERNMENT E-MARKET PORTAL-
PROCUREMENT OF VMware vcloud suite
2019 advanced
BID No: GEM/2022/B/19509 DATED: 30-05-2022

The Tender document for the above tender is available in bank's e-tendering website www.gem.gov.in and www.iob.in. For Tender details and future amendments, if any, refer to the following website www.gem.gov.in

National Centre for Radio Astrophysics
TATA INSTITUTE OF FUNDAMENTAL RESEARCH
Satvir Path, Pune University Campus, Ganeshkhind, Pune - 411 007.

TENDER NOTICE No. 02/2022-2023
Sealed bids are invited in Two Part (a) Laptops (b) Compute Servers (c) Compute Rack Servers.
For details and downloading the tender document please visit website:
http://www.ncra.tifr.res.in/ncra/tifr/public-tenders-1

CIAL GOCHIN INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED
CIAL/COM/LIC/26/19076 02.06.2022
TENDER NOTICE
Operator for General Aviation Terminal T2

Sealed Tenders are invited from eligible agencies for selection of an operator for the General Aviation Terminal T2 at Cochin International Airport. For further details please log on to our website www.cial.aero or contact 0484 2610115 (extn. 274, 2619) Sd/- Managing Director

KANSAL PAINT
KANSAL NEROLAC PAINTS LIMITED
Registered Office: Nerolac House, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, Maharashtra

Investor Relations E-mail: investor@knsnl.com
CIN: L24202MH1920PLCO00825

NOTICE
The Notice calling the 59th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, 23rd June, 2022 at 11 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM").

The Annual Report for the Financial Year 2021-22 ("Annual Report") along with the Notice of AGM and ballot paper is sent to all the Shareholders whose e-mail IDs are registered with the MCA Depository Participant(s). In accordance with the MCA Circulars and SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the AGM will be held without the physical presence of Shareholders at a common venue.

The AGM will be held on Thursday, 23rd June, 2022 at 11 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM"). The Annual Report for the Financial Year 2021-22 ("Annual Report") along with the Notice of AGM and ballot paper is sent to all the Shareholders whose e-mail IDs are registered with the MCA Depository Participant(s).

The AGM will be held on Thursday, 23rd June, 2022 at 11 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM"). The Annual Report for the Financial Year 2021-22 ("Annual Report") along with the Notice of AGM and ballot paper is sent to all the Shareholders whose e-mail IDs are registered with the MCA Depository Participant(s).

The AGM will be held on Thursday, 23rd June, 2022 at 11 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM"). The Annual Report for the Financial Year 2021-22 ("Annual Report") along with the Notice of AGM and ballot paper is sent to all the Shareholders whose e-mail IDs are registered with the MCA Depository Participant(s).

The AGM will be held on Thursday, 23rd June, 2022 at 11 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM"). The Annual Report for the Financial Year 2021-22 ("Annual Report") along with the Notice of AGM and ballot paper is sent to all the Shareholders whose e-mail IDs are registered with the MCA Depository Participant(s).

For KANSAL NEROLAC PAINTS LIMITED
Sd/-
G. T. Gowindarajan
Company Secretary

FILATEX INDIA LIMITED
CIN: L11740HD1009R CU00991
Registered Office: Survey No. 274, Derra Road, Union Territory of Jammu and Kashmir - 190191

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF FILATEX INDIA LIMITED
This Post Buyback Public Announcement ("Post Buyback Public Announcement") is being made in accordance with Regulation 24(iv) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2016, for the buyback in force including any statutory modifications and amendments from time to time ("SEBI Buyback Regulations") regarding completion of the Buyback.

1. The Board of Directors of Filatex India Limited ("the Company"), at their meeting held on March 29, 2022 (the "Board Meeting") had announced the buyback of up to 42,50,000 (Forty Two Lakh and Fifty Thousand) fully paid-up Equity Shares of the Company having the face value of Rs. 2/- each (Rupees Two Only) representing up to 89% of the total existing paid-up Equity Share capital of the Company who hold Equity Shares in the Record Date i.e. Friday, April 08, 2022 on a proportionate basis. The Buyback was implemented through the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange", as provided under the SEBI Buyback Regulations, circular no. CIR/CFD/POLICYCELL/12015 dated April 13, 2015 as amended via circular no. CFDR/CFD/IR/2016/131 dated December 9, 2016 and SEBI circular CFDR/CFD/IR/2022/1615 dated August 13, 2021, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). For the purposes of the Buyback, National Stock Exchange of India Limited ("NSE") was the designated stock exchange.

2. DETAILS OF THE BUYBACK
2.1. The Buyback Offer was on Monday, May 09, 2022 and the Buyback Closing Date was Monday, May 31, 2022.
2.2. The total amount utilized in the buyback was Rs. 59,50,00,000 (Rupees Fifty Nine Crore and Fifty Lakh Only) excluding the transaction costs.

Table with 6 columns: Category, Number of Equity Shares available for the Buyback, Number of valid bids, Total Equity Shares validly Tendered, Total Equity Shares Accepted, Response (%)

2.4. All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the SEBI Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/resjection has been dispatched by the Registrar on Wednesday, June 01, 2022 (by email), where email ID is registered with the Company or the depositories and through Registered Post/ Speed Post/ Non-remail cases.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN
3.1. The Capital Structure of the Company before and after the completion of the buyback is set forth below:

Table with 4 columns: S. No., Name of Shareholders, Number of Equity Shares accepted under the Buyback, Equity Shares accepted as a % of total Equity Shares, Equity Shares accepted as a % of total paid up Equity Capital of the Company

3.2. Details of Eligible Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back under the Buyback are as under:

Table with 4 columns: Category of shareholder, Number of Equity Shares, % to the existing Equity Share Capital, % to the existing Equity Share Capital

4. MANAGEMENT TO THE BUYBACK
Corporate Professionals Capital Private Limited
D-2, South Extension Part-I, New Delhi-110049, India
Tel: 011-49622331/40622200;
Email: info@cpcl.com

For and on behalf of the Board of Filatex India Limited
Sd/-
Madhu Sudhan Bhargava
Chairman & Managing Director

Date: June 01, 2022
New Delhi
In addition to the Company's contact details provided above, the investors may reach out to MCS Share Transfer Agent Limited for any queries at +91 011 4140644 and admin@registrars.com. Details of which are also included at Paragraph 27 of the Letter of Offer.

Sundram Fasteners Limited
CIN: L35999TN1962N CO04943
Registered Office: 98A, VV Floor, Dr Radhakrishnan Salai, Mylapore, Chennai - 600 004

NOTICE TO THE MEMBERS OF THE 59th ANNUAL GENERAL MEETING
The 59th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of the Company is scheduled to be held on Wednesday, June 29, 2022 at 10:00 A.M. IST through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM").

The Notice calling the 59th AGM (Notice) and the Annual Report for the financial year 2021-2022 (Annual Report) will be sent only by e-mail to all those members, whose e-mail addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants (Depository), in accordance with the above referred MCA Circulars and the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/IR/2022/62 dated May 13, 2022. Members can join and participate in the 59th AGM through VC / OAVM facility only. The instructions for joining the 59th AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or calling vote through the electronic voting system including registration as a speaker during the 59th AGM are provided in the Notice. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice and the Annual Report will also be available on the website of the Company, www.sundram.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of NSDL https://www.evoting.nsdl.com.

Members holding shares in physical / demat form who have not registered their e-mail addresses can get the same registered with the Company / Depository respectively / obtain the Notice of the 59th AGM, Annual Report and / or login details for joining the 59th AGM through VC / OAVM facility including e-voting, by sending scanned copy of the following documents to Integrated Registry Management Services Private Limited, the Registrar & Share Transfer Agents of the Company by e-mail at srtams@integratedindia.in with a copy to the Company at investorshelpdesk@cpcl.com:

- a. A signed request letter mentioning your name, folio number and complete address (in case, shares are held in physical form) for a copy of consolidated demat account statement (in case, shares are held in demat form);
- b. Scanned copy of share certificate (both sides); and
- c. Self-attested scanned copy of the PAN Card (or) AADHAR Card.

Members holding shares in physical form who have not registered their e-mail address for receiving the dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means ("Electronic Bank Mandate"), can register their Electronic Bank Mandate to receive dividends directly into their bank account electronically, by sending the following details / documents in addition to the documents to Integrated Registry Management Services Private Limited, the Registrar & Share Transfer Agents of the Company by e-mail at srtams@integratedindia.in with a copy to the Company at investorshelpdesk@cpcl.com:

- a. Name and Branch of Bank in which dividend is to be received and Bank Account type;
- b. Bank Account Number allotted by your bank after implementation of Core Banking Solutions;
- c. 11 digit IFSC Code; and
- d. Self-attested scanned copy of cancelled cheque leaf bearing the name of the first holder, in case, shares are held jointly.

Members holding shares in demat form are requested to update their Electronic Bank Mandate with their Depository. This information is being conveyed for the benefit of all Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars.

DEVYANI INTERNATIONAL LIMITED
Registered Office: F-27/1, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110 020; Tel: +91 11 41767207
Corporate Office: Plot No-18, Sector-25, Gurugram - 122004, Haryana (India); Tel: +91 124 4563000, 4786000

NOTICE TO THE MEMBERS OF 31st ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021 and 2/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 14, 2021 and May 5, 2022 respectively ("MCA Circulars") permitted to hold AGM through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without physical presence of the Members at a common venue in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder, SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI (LODR) Regulations") and MCA Circulars, the Board of Directors decided to convene 31st AGM of the Company on Tuesday, June 28, 2022 at 11:00 A.M. (IST) through VC / OAVM facility, without physical presence of the Members at a common venue.

Notice of the 31st AGM and Annual Report will also be made available on Company's website (www.dliiircorp.com), Stock Exchange's website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") (www.evoting.nsdl.com). Members can join and participate in the 31st AGM through VC / OAVM facility only. Members participating through VC / OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning quorum under Section 103 of the Act. (Detailed instructions for joining 31st AGM are provided in Notice of the 31st AGM).

Company is providing remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) facility to all its Members to cast their votes on all the resolutions to be passed at the 31st AGM. (Detailed instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM are provided in Notice of the 31st AGM).

To comply with the provisions of MCA Circulars, Notice of the 31st AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2022 will be sent by e-mail to those Members, whose e-mail address are already registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") or with their respective Depository Participants ("DP").

As per the process advised by DP, Members holding shares in demat form whose e-mail address are not registered with their DP are requested to register their e-mail address for receipt of Notice of the 31st AGM, Annual Report and login details for joining the 31st AGM through VC / OAVM facility including e-voting with their DP only. The registered e-mail address will also be used for sending future communications.

Further, Members holding shares in physical form who have not registered their e-mail address with the Company or RTA, can register their e-mail address for receipt of Notice of the 31st AGM, Annual Report and login details for joining 31st AGM through VC / OAVM facility including e-voting by sending a request to Company at companysecretary@dliiircorp.com or RTA viz. Link India Private Limited at delhi@linkintime.com or contact 011-49411000 by providing the name, folio number, scanned copy of the share certificate (front and back) and self-attested scanned copy of PAN and Aadhar Card in support for registering e-mail address.

Members holding shares in physical form are advised to provide mandatory documents (SEBI, email address, mobile number, bank account details and nomination) as mandated under SEBI Circular No. SEBI/MRSD/MRSD/RTM/PIR/2022/1655 dated November 3, 2021 read with clarification circular SEBI/HO/CFD/CMD/IR/2022/687 dated December 22, 2021 read with circular SEBI/HO/CFD/CMD/IR/2022/687 dated December 22, 2021 to avoid freeze of their folios on or after April 1, 2022.

Any person, who acquires share(s) and becomes Member of the Company after the date of dispatch of Notice of the 31st AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, June 21, 2022, may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in Notice of the 31st AGM or sending a request at evoting@nsdl.co.in.

In case of any query regarding e-voting, Members may contact Ms. Sarita Motam, NSDL at 1800-1020-990 or 1800-224-430 or send request at evoting@nsdl.co.in or write an e-mail to Company Secretariat of the Company at companysecretary@dliiircorp.com. The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA and other applicable Circulars. For and on behalf of Devyani International Limited Sd/- Varun Kumar Prabhakar Company Secretary & Compliance Officer

Sundram Fasteners Limited
CIN: L35999TN1962N CO04943
Registered Office: 98A, VV Floor, Dr Radhakrishnan Salai, Mylapore, Chennai - 600 004

NOTICE TO THE MEMBERS OF THE 59th ANNUAL GENERAL MEETING
The 59th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of the Company is scheduled to be held on Wednesday, June 29, 2022 at 10:00 A.M. IST through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM").

The Notice calling the 59th AGM (Notice) and the Annual Report for the financial year 2021-2022 (Annual Report) will be sent only by e-mail to all those members, whose e-mail addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants (Depository), in accordance with the above referred MCA Circulars and the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/IR/2022/62 dated May 13, 2022. Members can join and participate in the 59th AGM through VC / OAVM facility only. The instructions for joining the 59th AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or calling vote through the electronic voting system including registration as a speaker during the 59th AGM are provided in the Notice. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice and the Annual Report will also be available on the website of the Company, www.sundram.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of NSDL https://www.evoting.nsdl.com.

Members holding shares in physical / demat form who have not registered their e-mail addresses can get the same registered with the Company / Depository respectively / obtain the Notice of the 59th AGM, Annual Report and / or login details for joining the 59th AGM through VC / OAVM facility including e-voting, by sending scanned copy of the following documents to Integrated Registry Management Services Private Limited, the Registrar & Share Transfer Agents of the Company by e-mail at srtams@integratedindia.in with a copy to the Company at investorshelpdesk@cpcl.com:

- a. A signed request letter mentioning your name, folio number and complete address (in case, shares are held in physical form) for a copy of consolidated demat account statement (in case, shares are held in demat form);
- b. Scanned copy of share certificate (both sides); and
- c. Self-attested scanned copy of the PAN Card (or) AADHAR Card.

Members holding shares in physical form who have not registered their e-mail address for receiving the dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means ("Electronic Bank Mandate"), can register their Electronic Bank Mandate to receive dividends directly into their bank account electronically, by sending the following details / documents in addition to the documents to Integrated Registry Management Services Private Limited, the Registrar & Share Transfer Agents of the Company by e-mail at srtams@integratedindia.in with a copy to the Company at investorshelpdesk@cpcl.com:

- a. Name and Branch of Bank in which dividend is to be received and Bank Account type;
- b. Bank Account Number allotted by your bank after implementation of Core Banking Solutions;
- c. 11 digit IFSC Code; and
- d. Self-attested scanned copy of cancelled cheque leaf bearing the name of the first holder, in case, shares are held jointly.

Members holding shares in demat form are requested to update their Electronic Bank Mandate with their Depository. This information is being conveyed for the benefit of all Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars.

DEVYANI INTERNATIONAL LIMITED
Registered Office: F-27/1, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110 020; Tel: +91 11 41767207
Corporate Office: Plot No-18, Sector-25, Gurugram - 122004, Haryana (India); Tel: +91 124 4563000, 4786000

NOTICE TO THE MEMBERS OF 31st ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021 and 2/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 14, 2021 and May 5, 2022 respectively ("MCA Circulars") permitted to hold AGM through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without physical presence of the Members at a common venue in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder, SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI (LODR) Regulations") and MCA Circulars, the Board of Directors decided to convene 31st AGM of the Company on Tuesday, June 28, 2022 at 11:00 A.M. (IST) through VC / OAVM facility, without physical presence of the Members at a common venue.

Notice of the 31st AGM and Annual Report will also be made available on Company's website (www.dliiircorp.com), Stock Exchange's website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") (www.evoting.nsdl.com). Members can join and participate in the 31st AGM through VC / OAVM facility only. Members participating through VC / OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning quorum under Section 103 of the Act. (Detailed instructions for joining 31st AGM are provided in Notice of the 31st AGM).

Company is providing remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) facility to all its Members to cast their votes on all the resolutions to be passed at the 31st AGM. (Detailed instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM are provided in Notice of the 31st AGM).

To comply with the provisions of MCA Circulars, Notice of the 31st AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2022 will be sent by e-mail to those Members, whose e-mail address are already registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") or with their respective Depository Participants ("DP").

As per the process advised by DP, Members holding shares in demat form whose e-mail address are not registered with their DP are requested to register their e-mail address for receipt of Notice of the 31st AGM, Annual Report and login details for joining the 31st AGM through VC / OAVM facility including e-voting with their DP only. The registered e-mail address will also be used for sending future communications.

Further, Members holding shares in physical form who have not registered their e-mail address with the Company or RTA, can register their e-mail address for receipt of Notice of the 31st AGM, Annual Report and login details for joining 31st AGM through VC / OAVM facility including e-voting by sending a request to Company at companysecretary@dliiircorp.com or RTA viz. Link India Private Limited at delhi@linkintime.com or contact 011-49411000 by providing the name, folio number, scanned copy of the share certificate (front and back) and self-attested scanned copy of PAN and Aadhar Card in support for registering e-mail address.

Members holding shares in physical form are advised to provide mandatory documents (SEBI, email address, mobile number, bank account details and nomination) as mandated under SEBI Circular No. SEBI/MRSD/MRSD/RTM/PIR/2022/1655 dated November 3, 2021 read with clarification circular SEBI/HO/CFD/CMD/IR/2022/687 dated December 22, 2021 read with circular SEBI/HO/CFD/CMD/IR/2022/687 dated December 22, 2021 to avoid freeze of their folios on or after April 1, 2022.

Any person, who acquires share(s) and becomes Member of the Company after the date of dispatch of Notice of the 31st AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, June 21, 2022, may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in Notice of the 31st AGM or sending a request at evoting@nsdl.co.in.

In case of any query regarding e-voting, Members may contact Ms. Sarita Motam, NSDL at 1800-1020-990 or 1800-224-430 or send request at evoting@nsdl.co.in or write an e-mail to Company Secretariat of the Company at companysecretary@dliiircorp.com. The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA and other applicable Circulars. For and on behalf of Devyani International Limited Sd/- Varun Kumar Prabhakar Company Secretary & Compliance Officer

